



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग—II खण्ड 3—उपखण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-Section (i)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 1979/अग्रहायण 1, 1901

No. 363]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1979/AGRAHAYANA 1, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

नियमों का प्रारूप

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1979

सा.का.नि.632(अ).—कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) की धारा 10 की उप-धारा 2 के खण्ड (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कोयला खान श्रम कल्याण नियमावली, 1949 में और संशोधन करने के लिए, जो कुछ नियम बनाना चाहती है उनका निम्नलिखित प्रारूप, उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है; तथा एतद्वारा यह नोटिस दी जाती है कि उपर्युक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने की तारीख को या उसके बाद विचार प्रारम्भ किया जाएगा।

1. इन नियमों को कोयला खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम 1979 कहा जाएगा।

2. कोयला खान श्रम कल्याण निधि, नियमावली, 1949 के नियम 3 के उपनियम (1) में निम्नलिखित परिवर्तन होंगे :—

(1) खण्ड (क), उपखण्ड (1) में शब्द और कोष्ठक “श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग)” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (कोयला विभाग)” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(2) खण्ड (ख) में शब्द “माननीय श्रम और रोजगार मंत्री” के स्थान पर शब्द “माननीय इस्पात, खान और कोयला मंत्री” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

उपर्युक्त प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति ने जो भी आपत्तियां या संभाव ऊपर निर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले प्राप्त हो जाएंगे उन पर केन्द्र सरकार विचार कर लेगी।

[फा. सं. 1/2/79-सी.एम.डब्ल्यू.]

ए. एस. देशपाण्डे, उप सचिव

## MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 1979

**G.S.R. 632(E).**—The following draft of certain rules further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section (2) of section 10 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947 (32 of 1947), is published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT RULES

1. These rules may be called the Coal Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Rules, 1979.

2. In sub-rule (1) of rule 3 of the Coal Mines Labour Welfare Fund Rules, 1949,—

(i) in clause (a), in sub-clause (i), for the words and brackets "Ministry of Labour and Employment (Department of Labour and Employment)", the words and brackets "Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Coal)" shall be substituted ;

(ii) in clause (b), for the words "Hon'ble Minister for Labour and Employment", the words "Hon'ble Minister for Steel, Mines and Coal" shall be substituted.

[F. No. 1/2/79-CMW]

A. S. DESHPANDE, Dy. Secy.